

DIGICONTENT LIMITED

(formerly known as HT Digital Ventures Limited)

Registered Office: Hindustan Times House (2nd Floor) 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi 110 001, India

0 +91 11 6656 1234

1+91 11 6656 1270

www.digicontent.co.in corporatedept@digicontent.co.in

CIN: L74999DL2017PLC322147

10th February, 2023

BSE Limited P. J Towers, Dalal Street Mumbai - 400 001 National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) <u>Mumbai - 400 051</u>

Scrip Code: 542685

Trading Symbol: DGCONTENT

Sub: Newspaper advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Re: <u>Unaudited Financial Results (UFRs) for the quarter and nine months period ended on</u> 31st December, 2022

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith copy of relevant page of "Mint" (English) and "Hindustan" (Hindi) newspapers dated 10th February, 2023, publishing extract of UFRs of the Company for the quarter and nine months period ended 31st December, 2022, upon approval by the Board of Directors at its meeting held on 9th February, 2023.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Digicontent Limited

Company Secretary

Encl: As Above



Death toll crosses 19k in Turkey-Syria quake

Election in Turkey scheduled for May could face "very serious difficulties"

feedback@livemint.com

he plight of hundreds of thousands of people left homeless by earthquakes in Turkey and Syria grew more desperate on Thursday, while hopes faded of many more people being found alive amid the ruins of cities.

The death toll from Monday's quakes. which struck in the early morning, passed 17,500 on Thursday across both countries.

It was the biggest natural disaster to strike the region since 1999, when a similarly powerful quake killed more than 17,000 people in Turkey.

A Turkish official said the disaster posed "very serious difficulties" for the holding of an election scheduled for May 14 in which President Tayyip Erdogan has been expected face the toughest challenge in his two decades in power.

With anger simmering over the slow delivery of aid and delays in getting the rescue effort underway, the disaster is bound to play into the vote should it still go ahead. On the ground, many people in Turkey and Syria spent a third night sleeping outside or in cars in freezing winter temperatures, their homes destroyed or so shaken by the quakes they were too afraid to re-enter.

Hundreds of thousands of people have been left homeless in the middle of winter. Many have camped out in makeshift shelters in supermarket car parks, mosques, roadsides or amid the ruins, often desperate for food, water and heat.

At a gas station near the town of Kemalpasa, people picked through cardboard boxes of clothes dropped off as donations. In the port city of Iskenderun, Reuters

journalists saw people huddled round campfires on roadsides and in halfcrushed garages and warehouses. The only lights were the spotlights focused on cranes trying to remove slabs of debris.

Authorities say some 6,500 buildings in Turkey collapsed and countless more

Festival

Partners

Frob



Medical treatment being given to the people of earthquake-hit Turkiye at the Indian Army's field hospital, at Iskenderun in Hatay province

were damaged in the quake zone where some 13 million people live.

Turkey's AFAD disaster agency set up meeting points for people left homeless and wanting to be evacuated from the area. More than 28,000 people have been brought out so far, it said.

In Maras, people camped inside a bank, taping a sheet in the window for privacy. Others had set up on the grass median of a main road, heating instant soup on fires and wrapping themselves in blankets. In Antakya, some 30 tents erected by the Turkish Red Crescent in a park were all packed. Few petrol

stations had fuel and kilometres-long queues stretched at those that did. In the devastated Syrian town of Jandaris, Ibrahim Khalil Menkaween walked in the rubble-strewn streets clutching a folded white body bag. He said he had lost seven members of his family including his wife and two of his brothers. "I'm holding this bag for when they bring out my brother, and my brother's young son, and both of their wives, so we can pack them in bags," he said. "The situation is very bad. And there is no aid." The death toll in Turkey rose to 16,170 by Thursday morning. In Syria, already devastated by nearly 12

years of civil war, more than 3,000 people have died, On the ground, according to the government many people in and a rescue service in the **Turkey and Syria** rebel-held northwest.Turkspent a third night ish officials say some 13.5 milsleeping outside lion people were affected in or in cars in an area spanning roughly freezing winter 450 km (280 miles) from Adana in the west to Diyarba-

> kir in the east. In Syria, people were killed as far south as Hama, 250 km from the epicentre. In Syria, relief efforts are complicated by a conflict that has partitioned the country and wrecked its infrastructure. The first United Nations convoy carrying aid to northwest Syria since the quake crossed from Turkey on Thursday, a border official said.

Credit Suisse reports \$1.5 bn loss in Q4

GLOBAL

feedback@livemint.com

redit Suisse Group AG posted a bigger-thanexpected loss for the fourth quarter and unprecedented client outflows, exacerbating the difficulty for Chief Executive Officer Ulrich Koerner in returning to profitability by next year.

Shares in the Swiss bank slid as much as 12% on Thursday after it posted a fifth-straight quarterly loss, of 1.39 billion Swiss francs (\$1.5 billion). While outflows were concentrated in a hectic two-week period in October, the full scale of the exodus - 110.5 billion francs — still surprised analysts.

Koerner's Shares in the pledge to stem the decline hin-Swiss bank slid as ges on a massive much as 12% on client outreach program to woo nervous clients and their cash loss back to the bank, while carving out

investment bank and slashing costs. On Thursday, Credit Suisse reported progress in the steps needed to execute the | efforts to win funds back,

volatile

Extract of Un-audited Concolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 21, 2022

plan, including the purchase of dealmaker Michael Klein's boutique advisory firm, but

only tentative signs that customer confidence is returning. By "2024 I

think we should

be profitable," Thursday after it Koerner said in an posted a fifthinterview with straight quarterly Bloomberg Television's Francine Lacqua. "2023

> will be a transformative year, and then we get better and better," he said. Koerner detailed the bank's

reaching out to tens of thousands of clients following the October surge, with management "hopeful that we bring a fair part of the outflow back in 2023 and the rest will come later." Credit Suisse's total assets under management stood at 1.3 trillion Swiss francs at the end of 2022, a decline of almost 20% from a year earlier. Chief Financial Officer Dixit Joshi said Thursday that the wealth management unit had seen inflows in January, particularly in Asia Pacific.

The bank is executing on its restructuring plan "at pace," according to the CEO.

(IND in Lakhe excent earnings nor chare data)

February 9, 2023

Digicontent Limited

CIN:- L74999DL2017PLC322147

Registered Office: Hindustan Times House, 2nd Floor, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001, India Tel: +91-11- 6656 1234, Fax: +91-11-6656 1270, Website:- www.digicontent.co.in E-mail:- investor@digicontent.co.in

Extract of the dudition to the first first the quarter and mine months of accumulation of the contract of the quarter and mine months of accumulation of the contract of the quarter and mine months of the contract of the contract of the quarter and mine months of the contract of the con				(Inti in Lukilo oxoopt duriningo por oliuro duta)			
Particulars		Quarter Ended	Nine Months ended		Year ended		
	31.12.2022 Un-audited	30.09.2022 Un-audited	31.12.2021 Un-audited	31.12.2022 Un-audited		31.03.2022 Audited	
Revenue from Operations	9,230	8,637	8,669	25,790	23,709	32,413	
Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional)	141	(486)	1,625	(1,083)	3,004	3,359	
Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional)	141	(486)	1,625	(1,083)	3,004	3,359	
Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional)	26	(455)	1,114	(1,071)	1,930	2,105	
Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income/(Loss) (after tax)]	67	(323)	1,137	(945)	2,000	1,915	
Paid-up Equity Share Capital (Face Value - INR 2/- per share)	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	
Other Equity excluding Revaluation Reserves as per the balance sheet						(605)	
Earnings/(Loss) per share (of INR 2/- each)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)		
Basic & Diluted	0.04	(0.78)	1.91	(1.84)	3.32	3.62	
Matan							


- Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and or the Company's website "www.digicontent.co.in".
- The above un-audited consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 were reviewed and recon approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 9, 2023. The Statutory Auditors of the Company have conducted "Limited Review" of these results in terms of Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time and have
- The consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time

Additional Information on Standalone financial results is as follows:

	(INR in lakhs)	
nded	Year ended	
31.12.2021	31.03.2022	

Particulars	Quarter Ended			Nine Mon	Year ended	
	31.12.2022 Un-audited	30.09.2022 Un-audited	31.12.2021 Un-audited	31.12.2022 Un-audited	31.12.2021 Un-audited	31.03.2022 Audited
Revenue from Operations	40	42	39	121	95	134
(Loss) Before Tax	(343)	(353)	(339)	(1,048)	(1,145)	(1,463)
(Loss) After Tax	(343)	(353)	(339)	(1,048)	(1,145)	(1,463)
Total Comprehensive (Loss)	(341)	(351)	(339)	(1,046)	(1,143)	(1,464)
For and on behalf of the Board of Directors						





REVIEWED FINANCIAL RESULTS FOR THE NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022

(₹ in Crores)

SI. No	Particulars	Nine Months Ended 31.12.2022	Nine Months Ended 31.12.2021
1.	Premium Income (Gross)	29,221.85	32,904.65
2.	Net Profit/(Loss) After Tax	3,748.65	210.34
3.	Paid up Equity Share Capital	877.20	877.20
4.	Net Worth (Including Fair Value Change Account)	61,616.80	53,723.15
5.	Total assets	1,58,526.70	1,47,275.37
6.	Solvency ratio	2.38	1.80

Notes:-

CAFE HAIKU

- a) Premium income is Gross written premium, gross of reinsurance and net of applicable taxes.
- b) The above is an extract of the detailed format of quarterly and year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the quarterly and year to date Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Corporation (www.gicre.in)

For and on behalf of the Board Directors

Place: Mumbai Date: 10.02.2023

GIC Re: Reinsurers to the Nation



Sd/-**Devesh Srivastava** Chairman and Managing Director DIN: 08646006

CIN: L67200MH1972GOI016133 & IRDAI Registration No: 112

General Insurance Corporation of India

"Suraksha", 170, Jamshedji Tata Road, Churchgate, Mumbai 400020, India | Telephone (Board): +91 22 2286 7000 ∙ Email: info@gicre.in

Visit us at www.gicre.in





कृष्णराव कुडू, उम्र 59 वर्ष ने लिखा है किं बहुत दिनों से खेती के कारण पीठ में असहनीय दर्द रहने लगा था। फिर एक दिन न्यूजपेपर में आयूर्वेदिक डा. ऑर्थो तेल और कैप्सूल का एंड पढ़ा। 2 माह से डा. ऑथो तेल और कैप्सूल को यूज कर रहा हूं। पीठ का दर्द बहुत ही केंम हो गया है। इसीलिए डा. ऑर्थी

रेन गर्ग, उम्र 69 वर्ष बताती हैं कि वह एक समाजसेविका है। दिनभर की भागदौड़ से जोड़ों में काफी दर्द रहता था। कई लोगों ने आयुर्वेदिक डा. ऑर्थो तेल और कैप्सूल यूज़ करने की सलाह दी। नियमानुसार 3 महीने के इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द में बहुत राहत मिली है। सबसे अच्छी बात इसका कोई

्साईड—इफैक्ट भी नहीं है।

मोहम्मद इस्माईल, उम्र 62 वर्ष ने बताया कि सब्जी के काम की भागदौड़ के कारण घुटनों और पैरों में बहुत दर्द होता था। फिर एक दिन किसी मेडिकल स्टोर पर एक भाई ने आयुर्वेदिक डा. ऑर्थो तेल और कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी दी। जिसके नियमित इस्तेमाल से मुझे घुटनों और पैरों के दर्द से बहुत राहत मिली है।



प्राइवेट जॉब करते है। दिनभर की भागदौड़ की वज़ह से घुटनों और एड़ियों में काफी दर्द रहता था। फिर एक दिन मैंने अखबार में आयुर्वेदिक डा. ऑर्थो तेल और कैप्सूल का एड पढ़ा। दिए निर्देशानुसार, मात्र 45 दिनों में ही में दर्द से छुटकारा मिला। अब ्रोजाना इसका इस्तेमाल कर रहा हूं।

राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उम्र 61 वर्ष कृषि का काम करते है। खेती के काम से कमर, घुटनों में बहुत दर्द होता था। एक दिन मैंने अख़बार और टी.वी में आयर्वेदिक डा. ऑर्थो तेल और कैप्सूल का एड देखा और इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। 3-4 महीने में ही कमर व घूटनों के दर्द में बहुत अच्छा फायदा मिला। डा. ऑर्थो बेहद उपयोगी है।

प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में लुभावनी और मुफ्त योजनाओं का ऐलान करने वाली राज्य सरकारों को आगाह किया

अर्थनीति को अनर्थनीति में तब्दील न करें: मोदी



नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते। हुए लुभावनी व मुफ्त योजनाओं तथा परानी पेंशन योजना का ऐलान करने वाली राज्य सरकारों को आगाह किया। मोदी ने कहा, आज देश में जिनको आर्थिक नीतियों की समझ नहीं है, वो 24 घंटे राजनीति के सिवा कछ सोचते नहीं हैं। सत्ता का खेल खेलना जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थनीति में

तब्दील कर दिया है। मोदी ने कहा कि उनको चेतावनी देना चाहता हं और कहना चाहता हं कि कहीं वो गलत रास्ते पर नहीं चले जाएं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री पहले भी कुछ मौकों पर रेवड़ी नहीं बांटने की सलाह दे चुके हैं। इसे केजरीवाल सरकार से जोड़कर देखा गया था।

पडोसी देश का हाल देख लीजिए : मोदी ने राज्यसभा में कहा, हम अपने पड़ोसी देश का हाल देख रहे हैं। वहां पर क्या हाल हुआ है। अनाप-शनाप कर्ज लेकर किस तरह देश को डुबा

विपक्ष ने बजट को

राज्यसभा में गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 🛚 प्रेट्र

दिया गया। आज हमारे देश में तत्कालीन लाभ के लिए कुछ राज्य कदम उठा रहे हैं। भगतान आने वाली पीढ़ी करेगी। ये फॉर्मूला कुछ राज्यों ने अपनाया है। ये लोग देश को बर्बाद

देश की आर्थिक सेहत से खिलवाड़ नहीं करें : प्रधानमंत्री ने आगे कहा, कई देश कर्ज के तले दबते चले जा रहे हैं। उन्हें आज कर्ज देने के लिए दुनिया तैयार नहीं है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं

कीजिए। आप ऐसा पाप नहीं कीजिए जो आपके बच्चों का अधिकार छीन ले। आज आप मौज कर लें और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़कर चले जाएं, ऐसा नहीं करें। मैंने तो देखा कि एक मख्यमंत्री ने बयान दिया कि मझे मुसीबत नहीं आएगी। 2030-32 के बाद आएगी। कोई देश ऐसे चलता है क्या? देश की आर्थिक सेहत के लिए राज्यों को भी अपनी आर्थिक सेहत पर ध्यान देना पड़ेगा।

खड़गे को प्रधानमंत्री ने दिया

अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जवाब दिया। मोदी ने कहा, कल खड़गे जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार-बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं। उन्हें कहना चाहता हूं कि आता हूं वह तो आपने देखा, लेकिन आप यह भी देखें कि वहां 1 करोड़ 70 लाख जनधन बैंक खाते खुले हैं। सिर्फ कलबुर्गी में ही 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। तंज भरे लहजे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इतने बैंक के खाते खुल जाएं, इतने ज्यादा

इतिहास उटा कर देख लीजिए वे कौन–सी पार्टी थी, जिन्होंने आर्टिकल–356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 50 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। एक पीएम ने अनुच्छेद 356 का 50 बार दुरुपयोग किया, उनका नाम है इंदिरा गांधी। केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई, जिसको नेहरू पसंद नहीं करते थे। कुछ ही दिनों में सरकार को गिरा दिया। डीएमके मित्रों को बताता हूं, तमिलनाडु में भी एमजीआर व करुणानिधि जैसे दिग्गजों की कई सरकारों को काँग्रेस वालों ने ही गिराया था।

हो जाएं। ऐसे में किसी का खाता बंद हो

जाए तो मैं उनकी पीड़ा समझ सकता

हं। बार-बार उनका दर्द झलकता है।

उन्होंने कहा, आप दलित की बात करते

नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखते ।

मोदी ने गांधी परिवार पर परोक्ष हमला

करते हुए पुछा कि नेहरू सरनेम रखने

से क्या शर्मिंदगी है। उन्होंने कहा कि

इतने बडे (जवाहरलाल नेहरू) महान

परिवार को मंजूर नहीं है और आप

हमारा हिसाब मांगते हो।

व्यक्ति का सरनेम आपको मंजूर नहीं है,

हैं तो यह भी देखें कि उसी जगह दूसरे दलित को चुनाव में जीत भी मिली। अब आपको जनता ही नकार दे रही है। तो आप उसका रोना यहां रो रहे हैं। यही पंथ निरपेक्षता: मोदी ने कहा कि सेचुरशन तक पहुंचने का मतलब

होता है। भेदभाव की गुंजाइश खत्म करना। यह तुष्टिकरण की आशंकाओं को खत्म कर देता है। सामाजिक न्याय

मर्यादा के बारे में प्रवचन देने से पहले

अपने पिछले रिकॉर्ड देख लेना चाहिए।

की ये असली गारंटी है। ये सच्चा सेक्युलरिज्म है। यही पंथ निरपेक्षता है।

देश परिवार की जागीर नही

पीएम ने कहा, कुछ लोगों को समझना

होगा कि सदियों पुराना देश जन-जन

की पीढ़ियों से बना है। किसी परिवार

की जागीर नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा

सिर्फ घोटाले का काम किया और देश

कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में

को बर्बाद कर दिया।

एक पीएम ने अनुच्छेद 356 का 50 बार दुरुपयोग किया

विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने राज्यों की अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी थी। मोदी ने कहा कि

मोदी ने कहा, हम पर राज्यों के परेशान करने के आरोप लगते हैं। जो लोग आज

कांग्रेस को सजा दे रही जनता: मोदी ने कहा कि कांग्रेस को देश बार-बार नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और तक नहीं पहुंच पाए थे।

उसके साथी साजिशों से बाज नहीं आ रहे। जनता इसे देख रही है और उनको हर मौके पर सजा भी दे रही है। कांग्रेस सरकार ने बैंकों का एकीकरण इस इरादे से किया था कि गरीबों को बैंकों का अधिकार मिले, लेकिन इस देश के आधे से अधिक लोग बैंक के दरवाजे

भाजपा ने सांसदों को जारी किया व्हिप

नर्ड दिल्ली। भाजपा ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को गुरुवार को व्हिप जारी किया है। इसमें सांसदों को 9, 10 और 13 फरवरी को अनिवार्य रूप से सदन में रहने को कहा गया है। इस दिन संसद में आम बजट पर चर्चा और

उसे पारित किया जाना है। बधवार रात कोरम परा नहीं होने की वजह से बजट पर चर्चा के बीच ही सदन स्थगित करना पड़ा था। कोरम के नियमों के अनुसार सदन में कम से कम 55 सदस्यों की मौजूदगी जरूरी है।

सवाल-जवाब

| लोकसभा | डोन उपकरणों के विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना शुरू की

 देशभर में कितने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां हैं? -**हेमंत तुकाराम गोडसे**, शिवसेना

एक जनवरी 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक, देश में 85 हजार 529 पेटोल पंप और 25 हजार 341 गैस

- हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री क्या नागर विमानन मंत्रालय ने दो

से 31 अक्तबर 2022 तक स्वच्छता के लिए विशेष अभियान-२ का आयोजन किया? – **सत्यदेव पचौरी**, भाजपा

हां। पुरे देश में 134 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमे 43224 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गर्द। दसमें से ३२०१० भौतिक फाइलों की छंटाई की गई। 42,786 वर्ग फुट जगह खाली की गई। इस अभियान का उदेश्य लंबित मामलों का निपटान और सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाना था।

– ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागर

 सरकार ने इलेक्टिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

अपरुपा पोद्दार, तुणमूल कांग्रेस देश में पर्यावरण के अनुकूल ईवी वाहनों के निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2015 में हाईब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विनिर्माण योजना शुरू की गई।

 नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

🔳 क्या देश में ड्रोन के कल–पूर्जों के निर्माण के लिए आवश्यक कंपनियों के नेटवर्क की कमी है?

- **डॉ. अमर सिंह**, कांग्रेस प्रमुख ड्रोन घटकों में बीएलडीसी मोटर, सेंसर, पीसीबी, टार, बैटरी, कार्बन फाड़बर शीटस एवं विधिक प्लास्टिक शामिल हैं। इन पुर्जों और उपकरणों क आयात किया जा रहा है। सरकार ने भारत में डोन उपकरणों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए पीएलआई योजना शुरू की है।

– जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह नागर विमानन राज्यमंत्री

राज्यसभा

देश के 609 जिलों में ईएसआई योजना किया गया है लागू

खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है?

 सुशील कुमार गुप्ता, सांसद आप देशभर में अभी तक 733 खेलो इंडिया केंद्र अधिसचित किए गए हैं।

- अनुराग सिंह ठाकुर, खेल मंत्री। सरकार ने कितने रोजगार मेले आयोजित किए। इनमें कितनों को

नियुक्ति पत्र बांटे गए? - **मल्लिकार्जुन खड़गे**, सांसद कांग्रेस तीन चरणों में केंद्र सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों आदि द्वारा 2.18 लाख नवनियुक्ति कर्मियों को

शामिल किया गया था। -जितेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री।

देश के कितने जिलों में ईएसआई योजना को लागू किया गया है? -**सुष्मिता देव**, सांसद टीएमसी फरवरी २०२३ तक ईएसआई योजना

के तहत देश के 744 जिलों में से 609 जिलों में इसका विस्तार किया गया है। इसमें 481 में पूर्ण रूप से लागू हैं। -**रामेश्वर तेली**, श्रम एवं रोजगा राज्य मंत्री

 राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कितने व्यापारी पंजीकत हैं

– **अशोक कुमार मित्तल**, सांसद आप दिसंबर 2022 तक 52211 व्यापरियों को पंजीकृत किया गया है।

-**रामेश्वर तेली**, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री।

जनविरोधी बताया **नर्ड दिल्ली, विशेष संवाददाता**।विपक्षी

दलों ने आम बजट को जनविरोधी बताते हुए गुरुवार को कहा कि बजट में भविष्य को लेकर दृष्टिकोण नहीं है। मनरेगा सहित कई अन्य योजनाओं के लिए आवंटन घटाने का आरोप भी लगाया। वहीं. सत्तापक्ष ने बजट को नया

कीर्तिमान करार दिया। कहा, सरकार ने गरीबों के कल्याण की योजनाओं को प्रतिबद्धता के साथ बढाया है। बजट का लाभ गांव, गरीब, किसान और यवाओं

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। कांग्रेस

ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के

दौरान राहुल गांधी और राज्यसभा में

विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के

भाषण का अंश हटाने को लेकर कडा

विरोध दर्ज कराया है। पार्टी ने राज्यसभा

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर

रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम

बिरला को पत्र लिखकर राहुल गांधी

के भाषण को संपादित करने के निर्णय

पर फिर से विचार करने का अनुरोध

किया है। वहीं, खड़गे ने राज्यसभा के

सभापति को पत्र लिखकर अपनी

नाराजगी जताते हुए सदन की परंपराओं

को याद दिलाया है। लोकसभा अध्यक्ष

के सभापति को पत्र लिखा है।

मोदी का भाषण विपक्षी हमले मनमोहन सिंह को सदन में का मुंहतोड़ जवाब: भाजपा नहीं बोलने दियाथा: कांग्रेस

ने गुरुवार को विपक्ष पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी के अभिभाषण को बाधित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने इसे विफल कर दिया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी

मेरी बात के गलत अर्थ निकाले गए : खडगे

ने कहा कि मोदी के बुधवार को लोकसभा में दिए गए भाषण ने विपक्ष की नकारात्मक और राष्ट्र-विरोधी

- 200

राजनीति को खत्म कर दिया था। यही नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।

राज्यसभा में उनके भाषण को बाधित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा हालांकि. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

के संबोधन ने भारत के 140 करोड लोगों के दिलों को छू लिया।

वजह है कि इससे हताश और निराश राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पर प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी के जवाब के दौरान हंगामे को लेकर भाजपा की नसीहतों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है।

पार्टी का कहना है कि भाजपा और उसके नेताओं को विपक्ष को सदन की

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि जून 2004 में भाजपा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का

जवाब नहीं देने दिया था। मजबरन प्रधानमंत्री को अपना जवाब सदन के

भाषणके अंशहटाने परकांग्रेस ने नाराजगी जताई संसरिएका

सदन में नियमों, परंपराओं

राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने का परी तरह से पालन सदन की कार्यवाही से अपने भाषण के छह हिस्से नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि परंपराओं और हटाए जाने पर आपत्ति जताई, पर सभापति जगदीप नियमों का सदन में पुरी तरह पालन धनखंड ने कहा कि कार्यवाही का गहन अध्ययन करने किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां के बाद ही कुछ हिस्से हटाए गए हैं। राज्यसभा में जो कुछ कहा जाता है, वह नियमों के खड़गे ने यह मामला उठाते हुए कहा कि उन्हें नहीं दायरें में रह कर ही कहा जाता है। लगता कि उन्होंने कुछ असंसदीय कहा था। मेरी बात लेकिन, फिर भी चुन-चुन कर गलत के गलत अर्थ निकाले गए। उन्होंने कहा कि 'मौनीबाबा' जैसे शब्द को भी हटा अर्थ निकाले गए मैं यह तो नहीं कहंगा लेकिन फिर भी ... मुझसे इस दिया गया, जिसका प्रयोग खुद वाजपेई जी ने पीएम नरसिंह राव के लिए सदन में

किया था। वह आज भी रिकॉर्ड में दर्ज है।

को लिखे अपने पत्र में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सदन की कार्यवाही से राहल गांधी के भाषण का एक बडा हिस्सा इस तरह से हटा दिया गया कि

राहुल गांधी का पूरा भाषण समझ से बाहर हो गया। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने निर्वाचित सदस्यों को बिना किसी दूर या प्रथपात के संसद में बोलने

का अधिकार दिया। चौधरी ने कहा कि संविधान संसद में बोलने की पूरी आजादी देता है। यह स्वतंत्रता पूर्ण और असीमित है।

बारें में बात की जा सकती थी।

आराप लगाया

नर्ड दिल्ली, एजेंसी। तणमल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने गरुवार को सरकार पर निशाना साधते हुए राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष के विरोध पर सेंसरशिप का आरोप लगाया।

राज्यसभा में टीएमसी नेता ओ ब्रायन ने टवीट किया. संसद में सेंसरशिप। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तो विपक्षी टीएमसी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीआरएस पार्टी और माकपा एवं अन्य के सांसदों को राज्यसभा के भीतर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रदर्शन करते हए नहीं दिखाया गया।

WEDDING COLLECTION SALE Raymond

Extra fine Pure Wool, Silk, Linen & Cotton blended Fabrics

For Formals, Casual & Party Wears By Economy Sales: 9212758425

Latest Range of Designs & Colors

• SWEATER • SHIRT • TROUSER • SUIT • BLAZER

ravmond

PUNCHKUIAN ROAD, Garwal Bhawan, (Near Jhandewalan, Gole Chkr.)
WAZIRPUR A-5, Near Richi Rich Banquet (Opp. Shalimar Bagh)
JANAKPURI B-1/2, Main Najafgarh Road, Opp. Metro Pillar 543
NOIDA, Nirula's Sec-2, Near Metro Station, Sec-15, Noida, UP
LAJPAT NAGAR, 49, Main Ring Road, Adj. Haldi Ram, Near Moolchand Crossing

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम से उसके द्वारा दोबारा भेजे गए 10 प्रस्तावों पर पनर्विचार करने को कहा है। कानुन मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी।

एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि इन 10 प्रस्तावों में से तीन मामलों में कोलेजियम ने नियुक्ति के लिए अपनी पहले की सिफारिश को दोहराया है। शेष सात प्रस्तावों पर कोलेजियम ने उच्च न्यायालय

नई दिल्ली, एजेंसी। आर्टिफिशियल

इंटेलीजेंस यानी एआई के जरिये बाजार

में खुद को आगे बढ़ाने की होड़ के

बीच गुगल को उसके चैटबॉट बार्ड ने

100 अरब डॉलर से अधिक का

झटका दिया है। बार्ड के एक गलत

जवाब की वजह से कंपनी के शेयरों में

जोरदार गिरावट आई।



मांगी है। रिजिजु ने कहा कि सरकार को

लगता है कि उसे मिली विभिन्न रिपोर्ट

और सचनाएं उसकी राय में कोलेजियम

द्वारा आगे विचार करने योग्य है, इसीलिए

केंद्र ने इस तरह के दोहराए गए मामलों

को पुनर्विचार के लिए उसे भेजा है, जैसा कि पहले में भी हुआ था।

न्यायपालिका में आरक्षण का प्रावधान नहीं :सरकार ने गुरुवार को संसद में कहा कि मौजूदा नीति और प्रावधान के अनुसार न्यायपालिका में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। हालांकि, न्यायमूर्तियों खासकर कोलेजियम सदस्यों से कहा गया है कि जज की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिशें करते समय वे उन वर्गों को ध्यान में रखें, जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

टीक नहीं: गोयल

नई दिल्ली। राज्यसभा में गुरुवार को किया गया है।

आक्षेप लगाना

केंद्र ने कहा कि विक्टोरिया गौरी की हाईकोर्ट की जज के रूप में नियक्ति पर आक्षेप नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्हें एक प्रक्रिया के जरिये नियुक्त

सदन के नेता पीयूष गोयल ने यह टिप्पणी की। वह तृणमूल कांग्रेस सदस्य जवाहर सरकार के सवाल का जवाब दे रहे थे। जवाहर सरकार ने पूछा था कि क्या गौरी की नियुक्ति सही थी।

Particulars

Revenue from Operations

(Loss) Before Tax

(Loss) After Tax

Total Comprehen

February 9, 2023

New Delhi

Digicontent Limited

CIN:- L74999DL2017PLC322147 Registered Office: Hindustan Times House, 2nd Floor, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001, India Tel: +91-11- 6656 1234, Fax: +91-11-6656 1270, Website:- www.digicontent.co.in E-mail:- investor@digicontent.co.in

Extract of Un-audited Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 (INR in Lakhs except earnings per share data)						
Particulars	Quarter Ended Nine Months ended			ths ended	Year ended	
	31.12.2022 Un-audited	30.09.2022 Un-audited		31.12.2022 Un-audited		31.03.2022 Audited
Revenue from Operations	9,230	8,637	8,669	25,790	23,709	32,413
Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional)	141	(486)	1,625	(1,083)	3,004	3,359
Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional)	141	(486)	1,625	(1,083)	3,004	3,359
Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional)	26	(455)	1,114	(1,071)	1,930	2,105
Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income/(Loss) (after tax)]	67	(323)	1,137	(945)	2,000	1,915
Paid-up Equity Share Capital (Face Value - INR 2/- per share)	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164
Other Equity excluding Revaluation Reserves as per the balance sheet		,		<u></u> '		(605)
Earnings/(Loss) per share (of INR 2/- each)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	
	1!					1

(1.84)The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on

the Company's website "www.digicontent.co.in". The above un-audited consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 were reviewed and recommended by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 9, 2023. The Statutory Auditors of the Company have conducted "Limited Review" of these results in terms of Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time and have

issued an unmodified review opinion. The consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with

31.12.2022

(343)

(343)

(341)

Quarter Ended

30.09.2022

(353)

(353)

(351)

31.12.2021

Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time Additional Information on Standalone financial results is as follows

> Audited (1,145) (1,048) (1,463 (339) (1,048) (1,145) (1,463) (1,143) (1.046)(1,464)For and on behalf of the Board of Directors Prayeen Someshwa

31.12.2021

Nine Months ended

31.12.2022

(INR in lakhs

Year ended

31.03.2022

प्रमोशनल वीडियो में एक सवाल का गलत जवाब दिया : गुगल की नई एआई चैटबॉट सर्विस बार्ड ने अपने प्रमोशनल वीडियो में एक सवाल का गलत जवाब दिया है। इस खबर के बाद आठ फरवरी को न्यूयॉर्क स्टॉक

खतरा : आपके माउस क्लिक पर भी एआई की नजर

गूगलको चैटबॉट बार्ड से 100 अरब डॉलर का झटका

एआई ने पहले ही भर्ती से लेकर प्रशिक्षण और मुल्यांकन जैसे मानव संसाधन प्रक्रिया के कई हिस्सों में प्रवेश कर लिया है। एआई न केवल आपके काम पर नजर रख रहा है बल्कि वह आपको नौकरी से निकलवाने का काम भी कर सकता है। फैसले लेने के लिए डिजाइन की गई तकनीक अब छंटनी के लिए अपना रास्ता बना रही है। मौजूदा समय में दुनियाभर में खर्च में कटौती के लिए कार्यबल में कमी का दौर चल पड़ा है। टेक्नोलॉजी क्षेत्र के रोजगार पर इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। पिछले साल केवल दिसंबर में दुनियाभर में करीब 42 हजार नौकरियां टेक क्षेत्रों में गई हैं। अनुसंधान फर्म गार्टनर की एक इकाई कैप्टर्रा के सर्वेक्षण में कहा गया कि 98 फीसदी मानव संसाधन (एचआर) अधिकारी 2023 की मंदी में श्रम लागत को कम करने के लिए कुछ हद तक सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम पर भरोसा करेंगे

एक्सचेंज पर गुगल की पैरेंट कंपनी घंटे में 7.8 फीसदी तक गिर गए। इस अल्फाबेट के शेयर नियमित कारोबारी गिरावट के चलते अल्फाबेट का बाजार

था। उनमें से कई को एआई की रिपोर्ट के आधार पर ऑटोमैटिक ईमेल द्वारा निकाल दिया गया। एआई न केवल आपकी उत्पादकता का स्कोर जांच रहा बल्कि उसकी

2021 में अमेजन फ्लेक्स डिलीवरी

डाइवरों पर एआई से नजर रख रहा

नजर कर्मचारी की कीबोर्ड के सामने उपस्थिति समेत उसके हर कीस्ट्रोक और माउस क्लिक पर भी है। इससे पिंक स्लिप बढ़ने का खतरा बढता जाएगा।

पंजीकरण करीब 100 अरब डॉलर से ज्यादा घट गया।